

***पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आज दिनांक:- 28.11.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण*:-**

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त 1. राकेश पुत्र लालजी निवासी मौ0 पीरगढ थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय 21 पच्चे देशी शराब फाईटर मार्का 2. गुलजेब पुत्र रहीश निवासी मौ0 कुरैशी थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा व 3. अर्ष उर्फ होलू पुत्र शब्बू निवासी मौ0 पीरगढ थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय 20-20 पच्चे देशी शराब फाईटर मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अमरोहा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा आमजन की मदद से चोरी कर रहे 02 अभियुक्त 1. सलमान पुत्र छम्मन निवासी मौ0 बसावन गंज थाना अमरोहा नगर व 2. गोलू पुत्र दीनदयाल निवासी मौ0 छंगा दरवाजा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय चोरी की हुई डिश टीवी की छतरी व एक तांबे के लोटा सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त सोराज पुत्र मेवाराम निवासी कैलसा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को मय एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त चिंटू पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पट्टी खादर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्त 1. तोला पुत्र तहसीन 2. नजरा पुत्र मजहर 3. रईस पुत्र बदलू 4. इसार पुत्र इशाक व 5. अबरार पुत्र अनवार समस्त निवासीगण ग्राम मोहरका पट्टी थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त नंदकिशोर पुत्र रामचंद्र जाटव पुत्र निवासी मौ0 कोट पूर्वी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना हसनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने, धोखाधडी कर पैसे ले लेने व मारपीट करने तथा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त आकाश सैनी पुत्र गिराज प्रसाद निवासी कालाकुआं अलवर थाना अरावली विहार राजस्थान को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना सैदनगली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शाकिर पुत्र सफाअत निवासी मौ0 मंसूरपुर कस्बा उझारी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा भट्टी लगाकर अवैध शराब का निर्माण कर रहा अभियुक्त प्रेमचन्द्र पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम सूबरा थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर करीब 200 लीटर लहन नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. करणपाल पुत्र रामफल व 2. प्रेम किशोर पुत्र ओमपाल निवासीगण ग्राम भैसरी थाना रहरा जनपद अमरोहा को मय 10-10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. लेखराज पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम सौहत थाना सैदनगली जनपद अमरोहा व 2. मोनू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम हसनगढ थाना अचौडा कम्बोह थाना सम्भल को मय 06-06 बोतल अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डिडौली पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति, थाना नौगावां सादात पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजरौला पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना रजबपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति व थाना आदमपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।